


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2016/ज्येष्ठ 24, 1938

No. 412]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2016/ JYAISTHA 24, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2016

सं. 24/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 599(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) और वित्त अधिनियम 2001 (2001 का 14) की धारा 136 की उप-धारा (3), के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा (5क) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 214/86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 25 मार्च, 1986, सा.का. नि. 547(अ), तारीख 27 मार्च, 1986, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, “स्वतंत्र व्यापारिक क्षेत्र” शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “विशेष आर्थिक क्षेत्र” शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं.354/34/2016-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं० 214/86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 25 मार्च, 1986, सा०का०नि० 547 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 27 मार्च, 1986 को प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) द्वारा अधिसूचना सं.

48/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 2006 सा.का.नि. 804(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2006 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2016

No.24/2016 – Central Excise

G.S.R. 599 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and sub-section (3) of section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.214/86-Central Excises, dated the 25th March, 1986, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 547(E), dated the 27th March, 1986, namely:-

In the said notification, for the words “free trade zone”, wherever they occur, the words “Special Economic Zone” shall be substituted.

[F. No. 354/34/2016-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note: The principal notification No. 214/86-Central Excises, dated the 25th March, 1986, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 547(E), dated the 27th March, 1986 and was last amended *vide* notification No. 48/2006-Central Excise, dated the 30th December, 2006, published *vide* number G.S.R. 804(E), dated the 30th December, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2016

सं. 25/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 600(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा (5क) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 67/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995, सा.का. नि. 259(अ), तारीख 16 मार्च, 1986, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, परंतुक में, मद (i) में, “स्वतंत्र व्यापारिक क्षेत्र” शब्दों के स्थान पर, “विशेष आर्थिक क्षेत्र” शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं.354/34/2016-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 67/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995, सा.का.नि. 259 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 16 मार्च, 1995 को प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम

संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 19/2014-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 सा.का.नि. 450(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2016

No.25/2016 – Central Excise

G.S.R. 600 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.67/95-Central Excises, dated the 16th March, 1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 259(E), dated the 16th March, 1986, namely:-

In the said notification, in the proviso, in item (i), for the words “Free Trade Zone” the words “Special Economic Zone” shall be substituted.

[F. No. 354/34/2016-TRU]
ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note: The principal notification No.67/95-Central Excises, dated the 16th March, 1995, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 259(E), dated the 16th March, 1995 and was last amended *vide* notification No.19/2014-Central Excise, dated the 11th July, 2014, published *vide* number G.S.R. 450(E), dated the 11th July, 2014.